



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 18, संख्या 36.

6 सितम्बर 2003

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2002	2003		घट-बढ़	
	30 अगस्त	22 अगस्त	29 अगस्त #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	2,51,198	2,88,115	2,85,293	-2,822	34,095
संचलन में नोट	2,51,170	2,88,102	2,85,272	-2,830	34,102
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	28	13	21	8	-7
जमाराशियां					
केन्द्र सरकार	100	100	101	1	1
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	57,375	69,665	66,919	-2,746	9,544
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,611	1,557	1,666	109	55
अन्य बैंक	3,488	4,217	4,276	59	788
अन्य	7,148	8,022	7,969	-53	821
अन्य देयताएं	1,13,008	1,10,871	1,11,546	675	-1,462
कुल देयताएं / आस्तियां	4,33,968	4,82,588	4,77,811	-4,777	43,843
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	2,82,606	3,75,740	3,78,829	3,089	96,223
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	15,814	16,740	16,740	—	926
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,16,218	69,469	63,883	-5,586	-52,335
ऋण और अग्रिम					
केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	3,426	5,279	3,974	-1,305	548
नाबार्ड	4,991	2,082	1,565	-517	-3,426
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	10	1	1	—	-9
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15	6	6	—	-9
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	1,232	1,151	1,151	—	-81
खरीदे और भुनाये गये बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	4,373	4,473	4,473	—	100
अन्य आस्तियां	5,284	7,648	7,190	-458	1,906

⁽¹⁾ विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गयी राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किये गये निवेश शामिल हैं। ⁽²⁾ 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। ⁽³⁾ इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भण्डार

मद	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	29 अगस्त 2003 को		सप्ताह		मार्च 2003 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2002 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भण्डार	3,95,585	86,255	3,089	692	37,305	10,827	57,236	15,810	97,117	24,740
जिसमें से :										
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,78,829	82,624	3,089	692*	37,353	10,734	57,055	15,630	96,223	24,367
(ख) स्वर्ण	16,740	3,628	—	—	-45	94	198	184	926	380
(ग) विशेष आहरण अधिकार	16	3	—	—	-3	-1	-17	-4	-32	-7
जापान मद : आरटीपी **	4,398	959	6	1	1,208	287	1,217	297	1,250	310

* : अ.डा. के रूप में दर्शायी गयी विदेशी मुद्रा आस्तियों में भण्डार में रखी गयी अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : विदेशी मुद्रा भण्डार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास रखे भारत के प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) शामिल नहीं है। आइएमएफ के साथ वित्तीय लेनदेन योजना के अंतर्गत भारत के लेनदेनों तथा साथ ही रुपया और अमरीकी डालर की तुलना में एसडीआर विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण आरटीपी में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	22 अगस्त 2003 को बकाया #	घटबढ़	अब तक के वित्त वर्ष			
			वर्ष-दर-वर्ष		2002	2003
			2002-2003	2003-2004		
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	37,762	-868	6,328	-2,692	3,507	5
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	17,265	-618	-977	-2,373	-1,358	-2,007
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	2,469	-94	-102	215	681	348
अन्यों के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां@	13,62,281	6,035	1,14,176	81,428	1,86,693	1,44,745
		(0.4)	(10.3)	(6.4)	(18.1)	(11.9)
			[10.8]	[6.6]	[18.9]	[12.3]
मांग	1,74,508	1,587	-2,137	4,219	7,751	23,597
मीयादी @	11,87,773	4,448	1,16,313	77,209	1,78,941	1,21,148
उधार ⁽³⁾	17,100	501	6,668	4,462	7,602	7,403
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1,29,048	-1,069	151	-758	18,332	17,014
रिजर्व बैंक से उधार	1	-190	-3,601	-78	-3,433	-14
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास शेष	78,037	5,453	5,150	12,135	-4,957	4,240
पास में नकदी	8,372	-369	436	805	223	1,691
रिजर्व बैंक के पास शेष	69,665	5,822	4,714	11,331	-5,181	2,549
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	15,987	138	-302	-1,202	1,435	-1,704
मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	29,400	1,894	914	-2,735	-2,653	1,862
बैंकों को अग्रिम	7,671	635	330	524	3,117	1,769
अन्य आस्तियां	2,547	-398	-18	-3	759	-110
निवेश⁽⁵⁾	6,18,526	1,416	62,897	70,980	94,812	1,17,359
		(0.2)	(14.4)	(13.0)	(23.3)	(23.4)
सरकारी प्रतिभूतियां	5,91,095	1,637	64,245	67,678	98,192	1,15,674
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	27,431	-220	-1,348	3,302	-3,380	1,686
बैंक ऋण	7,27,244	-1,430	63,659	-1,971	1,25,773	73,863
		(-0.2)	(10.8)	(-0.3)	(23.8)	(11.3)
खाद्य ऋण	41,283	-1,969	2,422	-8,197	5,763	-15,118
खाद्येतर ऋण	6,85,962	538	61,236	6,226	1,20,010	88,981
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	6,83,738	-1,209	64,105	1,665	1,22,578	72,026
देशी बिल - खरीदे गये	5,006	-117	-587	-578	-271	563
भुनाये गये ⁽⁶⁾	19,174	-111	256	-1,010	992	635
विदेशी बिल - खरीदे गये	8,704	-81	181	-1,046	965	-565
भुनाये गये	10,622	88	-296	-1,003	1,509	1,204
नकद-जमा अनुपात	5.73					
निवेश-जमा अनुपात	45.40					
ऋण-जमा अनुपात	53.38					

@ : इसमें 28 अगस्त 1998 से रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड से हुए 17,945 करोड़ रुपये के आगम तथा 17 नवम्बर 2000 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट से हुए 25,662 करोड़ रुपये के आगम भी शामिल हैं। इटैलिक में दिये गये आंकड़े रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट को छोड़कर निवल राशियों में हुआ प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिये गये उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना सम्भव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्यों के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, आइडीबीआई, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिये गये निवेश एसएलआर प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिये गये अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित अवधि में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

4. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

मद / सप्ताहांत	2002	2003					
	23 अगस्त	18 जुलाई	25 जुलाई	1 अगस्त	8 अगस्त	15 अगस्त	22 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
बैंक दर	6.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.00-12.00	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50
जमा दर ⁽⁴⁾	7.00-8.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गये उधार	3.00/6.10	3.95/5.15	3.75/5.10	3.00/5.50	3.00/6.25	3.50/5.50	3.95/5.30
- दिये गये उधार	3.00/6.55	3.95/5.15	3.90/5.25	3.00/5.10	3.00/6.25	3.50/5.50	4.00/5.35

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच मुख्य बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के लिए प्रमुख बैंकों की जमा दर। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों का 90-95 प्रतिशत आ जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

मद	2003 - 2004			2002 - 2003		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2003			2002		
	21 मार्च	22 अगस्त		22 मार्च	23 अगस्त	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	7,29,215	7,27,244	-1,971 (-0.3)	5,89,723	6,53,381	63,659 (10.8)
अ. खाद्य ऋण	49,479	41,283	-8,197	53,978	56,400	2,422
आ. खाद्येतर ऋण	6,79,736	6,85,962	6,226 (0.9)	5,35,745	5,96,981	61,236 (11.4)
2. निवेश	92,854	88,628@	-4,225	81,000	87,574 +	6,575
अ. वाणिज्यिक पत्र	4,007	3,715	-292	8,497	7,463	-1,034
आ. निम्न द्वारा जारी शेयर (क+ख)	9,019	8,604	-416	5,914	9,045	3,131
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1,430	1,349	-81	1,587	1,458	-128
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7,589	7,255	-334	4,327	7,586	3,259
इ. निम्न द्वारा जारी बाण्ड/ डिबेंचर (क+ख)	79,828	76,310	-3,518	66,589	71,067	4,478
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	46,854	46,312	-542	39,520	39,222	-298
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,973	29,998	-2,975	27,069	31,845	4,776
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाये गये बिल	105	393 @@	288	906	701 ++	-205
4. कुल (1आ+2+3)	7,72,695	7,74,983	2,288	6,17,650	6,85,256	67,606

@ : 22 अगस्त 2003 तक.

@@ : 30 जून 2003 तक.

+ : 23 अगस्त 2002 तक

++ : 30 जून 2002 तक.

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमियम

विदेशी मुद्रा	2002						2003						
	30 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त	27 अगस्त	28 अगस्त	29 अगस्त	30 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त	27 अगस्त	28 अगस्त	29 अगस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)							विदेशी मुद्रा प्रति रु. 100@ (मध्य दरों पर आधारित)						
अमरीकी डालर		48.5100	45.8600	45.8700	45.8400	45.8300	45.8500						
यूरो		47.7400	49.8800	49.7700	49.8100	49.6900	49.9100						
फेडरई की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)													
अमरीकी डालर	{ खरीद	48.5050	45.8500	45.8600	45.8350	45.8250	45.8450	2.0614	2.1805	2.1801	2.1815	2.1820	2.1810
	बिक्री	48.5150	45.8600	45.8700	45.8450	45.8350	45.8550						
पौण्ड	{ खरीद	75.1400	72.1900	72.0050	71.9650	71.7750	72.3525	1.3306	1.3850	1.3892	1.3883	1.3923	1.3826
स्टर्लिंग	{ बिक्री	75.1750	72.2200	72.0475	72.0050	71.8200	72.3925						
यूरो	{ खरीद	47.7675	49.8700	49.7775	49.7575	49.6800	49.9350	2.0947	2.0048	2.0092	2.0076	2.0125	2.0036
	बिक्री	47.8025	49.8900	49.8000	49.7925	49.7025	49.9600						
100 येन	{ खरीद	41.1025	38.9825	39.0175	38.9550	38.9800	39.1575	243.28	256.48	256.26	256.51	256.39	255.30
	बिक्री	41.1325	38.9925	39.0425	38.9850	39.0150	39.1750						
अमरीकी डालर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)													
1 - माह		3.96	3.40	3.14	2.88	2.62	1.83						
3 - माह		3.88	2.18	2.01	1.66	1.48	1.05						
6 - माह		4.04	1.83	1.70	1.48	1.31	0.96						

@ : ये दरें अमरीकी डालर के लिए रिजर्व बैंक की संदर्भ दर और परस्पर लेनदेन मुद्रा भाव की मध्य दरों पर आधारित हैं। 29 जनवरी 1998 से लागू ये दरें रिजर्व बैंक द्वारा घोषित हैं।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टाक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		पखवाड़ा		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	22 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	17,25,222 [16,95,551]	18,22,391	4,299	0.2	1,34,355 [96,149]	9.0 [6.4]	97,168	5.6	2,34,199 [1,95,993]	16.7 [14.0]	1,89,681	11.6
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	2,70,983	2,84,226	-1,818	-0.6	10,677	4.4	13,243	4.9	31,900	14.5	32,754	13.0
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	1,98,602	2,02,089	1,629	0.8	-3,046	-1.7	3,487	1.8	9,562	5.7	25,935	14.7
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	12,52,396 [12,22,725]	13,31,689	4,537	0.3	1,26,002 [87,796]	11.7 [8.2]	79,293	6.3	1,92,820 [1,54,614]	19.1 [15.3]	1,30,175	10.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,242	4,387	-49	-1.1	722	25.3	1,145	35.3	-83	-2.3	816	22.8
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	6,78,059	7,07,210	-9,132	-1.3	49,082	8.3	29,151	4.3	83,220	15.0	68,563	10.7
(क) रिजर्व बैंक	1,20,679	74,786	-10,930	-12.8	-17,971	-11.8	-45,894	-38.0	-21,926	-14.0	-59,421	-44.3
(ख) अन्य बैंक	5,57,379	6,32,424	1,798	0.3	67,053	15.3	75,045	13.5	1,05,146	26.3	1,27,984	25.4
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	9,06,612	9,08,700	-1,375	-0.2	63,693	8.4	2,089	0.2	1,29,088	18.6	85,361	10.4
(क) रिजर्व बैंक	3,048	2,951	-497	-14.4	-3,003	-50.7	-98	-3.2	-6,331	-68.4	25	0.9
(ख) अन्य बैंक	9,03,564	9,05,750	-878	-0.1	66,696	8.8	2,186	0.2	1,35,418	19.8	85,336	10.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,93,715	4,27,934	1,222	0.3	36,290	11.7	34,219	8.7	88,683	34.3	80,609	23.2
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,071	7,073	—	—	362	5.7	1	—	1,007	17.6	344	5.1
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं	2,60,234	2,28,526	-13,585	-5.6	15,072	9.0	-31,708	-12.2	67,800	58.7	45,197	24.7
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,27,141	1,05,583	-13,400	-11.3	8,054	8.0	-21,558	-17.0	24,018	28.2	-3,691	-3.4

@ : इसमें रिसर्जेंट इंडिया बाण्ड के माध्यम से 28 अगस्त 1998 से प्राप्त रु.17,945 करोड़ और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के माध्यम से 17 नवम्बर 2000 से प्राप्त रु.25,662 करोड़ की राशि शामिल है।

[] में दिये गये आंकड़ों में 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल नहीं है।

8. प्रारक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		सप्ताह		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	29 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रारक्षित मुद्रा	3,69,061	3,69,541	-5,460	-1.5	-14,099	-4.2	479	0.1	27,412	9.2	45,669	14.1
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	2,82,473	2,92,345	-2,830	-1.0	6,924	2.8	9,872	3.5	31,929	14.1	34,447	13.4
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा	83,346	72,861	-2,577	-3.4	-21,673	-25.8	-10,485	-12.6	-4,308	-6.5	10,388	16.6
(iii) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,242	4,334	-53		650		1,092		-209		835	
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण :	1,20,679	67,890	-6,896	-9.2	-32,562	-21.4	-52,790	-43.7	-28,125	-19.0	-51,726	-43.2
जिसमें से - केन्द्र को	1,12,985	63,957	-5,591		-25,153		-49,027		-27,362		-52,274	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - जिसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	10,208	5,746	-517	-8.3	-7,506	-45.0	-4,463	-43.7	-6,641	-42.0	-3,425	-37.3
	7,160	2,795	-517		-4,507		-4,365		-1,417		-3,446	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,58,244	3,95,551	3,089	0.8	34,433	13.0	37,308	10.4	84,575	39.6	97,150	32.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,071	7,073	—		362		1		1,007		344	
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,27,141	1,06,719	1,136		8,826		-20,422		23,404		-3,327	

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

च.समा.सु. तारीख	रेपो/रिरेपो अवधि (दिन)	रेपो					रिवर्स रेपो					प्रणाली में डाली (+)/से निकाली गयी (-) निवल चलनिधि (11-6)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)		
		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 अगस्त 2003	1	17	2,675	16	2,585	4.50	—	—	—	—	—	-2,585	2,585
25 अगस्त 2003	14	6	14,790	6	14,790	4.50	—	—	—	—	—	-14,790	17,375
26 अगस्त 2003	1	36	16,805	36	16,805	4.50	—	—	—	—	—	-16,805	31,595
27 अगस्त 2003	1	35	23,015	35	23,015	4.50	—	—	—	—	—	-23,015	37,805
28 अगस्त 2003	1	36	24,850	36	24,850	4.50	—	—	—	—	—	-24,850	39,640
29 अगस्त 2003	3	37	21,925	37	21,925	4.50	—	—	—	—	—	-21,925	36,715

@ : रिवर्स रेपो को घटाकर। इसमें 14-दिवसीय रिपो शामिल हैं। '—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. 91-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003														
1 जन.	3 जन.	1,000	49	3,385	400	33	1,000	400	—	—	1,400	98.67	5.4328	7,600
2003-2004														
1 अप्रैल	4 अप्रैल	500	32	950	—	20	500	—	—	—	500	98.66	5.4739	8,727
2 जुलाई	4 जुलाई	500	31	778	—	25	500	—	—	—	500	98.77	5.0223	7,488
27 अगस्त	29 अगस्त	1,500	43	1,618	200	41	1,500	200	—	—	1,700	98.85	4.7354	11,338

* : 14 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार (डिवाल्मेंट) की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

टिप्पणी : एक समान मूल्यों पर नीलामी 6 नवम्बर 1998 से शुरू की गई। 11 दिसंबर 2002 से नीलामी का फार्मेट बहुविध मूल्य पर नीलामी में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. 364-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुषंगी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003														
8 जन.	10 जन.	1,000	51	2,245	—	20	1,000	—	—	—	1,000	94.90	5.4074	24,870
2003-2004														
1 अप्रैल	4 अप्रैल	1,000	55	2,210	—	19	1,000	—	—	—	1,000	94.82	5.4964	26,126
9 जुलाई	11 जुलाई	1,000	51	2,430	29	21	1,000	29	—	—	1,029	95.28	4.9648	26,128
20 अगस्त	22 अगस्त	1,000	64	2,385	—	23	1,000	—	—	—	1,000	95.28	4.9648	26,124

* : 19 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

\$: 2 जून 1999 की नीलामी से प्रभावी, अप्रतिस्पर्धी बोलियों की अनुमति दी गई।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भारि बैंक के पास संचयी नकद शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8 अगस्त 2003	9 अगस्त	10 अगस्त	11 अगस्त	12 अगस्त	13अगस्त	14 अगस्त	15 अगस्त	16 अगस्त	17 अगस्त	18 अगस्त	19 अगस्त	20 अगस्त	21 अगस्त	22 अगस्त	
	62,766	1,25,532	1,80,504	2,51,970	3,16,153	3,91,256	4,66,360	5,29,551	5,92,211	6,57,129	7,19,739	7,85,390	8,51,299	9,20,803	
5 सित. 2003	23 अगस्त	24 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त	27 अगस्त	28 अगस्त	29 अगस्त	30 अगस्त	31 अगस्त	1 सित.	2 सित.	3 सित.	4 सित.	5 सित.	
	69,750	1,39,501	2,16,207	2,84,101	3,47,141	4,09,739	4,76,489								

टिप्पणी : आंकड़े पखवाड़े के दौरान संचयी आधार पर भारि बैंक के पास रखी जाने वाली अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद से संबंधित हैं।

13. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
12 जुलाई 2002	1,312	29	5.21 — 9.10
4 अक्टू. 2002	1,270	169	5.20 — 8.25
10 जन. 2003	1,199	59	4.37 — 6.61
4 अप्रैल 2003	1,188	25	5.25 — 7.40
11 जुलाई 2003	2,242	44	4.45 — 6.25
25 जुलाई 2003	2,551	759	5.25 — 6.75

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दायरा।

14. कम्पनियों द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	व्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्टू. 2002	8,589	1,134	6.13 — 8.25
15 जन. 2003	8,645	886	5.70 — 7.50
15 अप्रैल 2003	5,839	752	5.25 — 8.15
15 जुलाई 2003	7,069	1,142	5.15 — 6.80
15 अगस्त 2003	7,488	1,017	5.10 — 8.25
31 अगस्त 2003	7,646	648	5.00 — 6.65

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू विशिष्ट वार्षिक बढ़ा दर का दायरा।

15. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2002	2003		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		17 अगस्त	21 जून*	16 अगस्त #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	167.0	173.8	173.2	-0.2	-0.1	0.5	3.7
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	174.7	184.8	180.6	-0.6	0.3	1.3	3.4
(i) फल और सब्जियां	2.92	192.3	217.2	193.2	-2.9	4.9	6.2	0.5
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक	14.23	237.6	246.1	247.5	—	—	-3.4	4.2
विनिर्मित उत्पाद	63.75	148.6	153.8	154.1	—	-0.3	1.7	3.7
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	138.3	131.5	141.2	0.4	3.1	9.2	2.1
ii) खाद्य तेल	2.76	141.2	156.9	155.9	-0.4	-0.7	3.2	10.4
iii) सीमेंट	1.73	144.9	146.6	145.6	—	-0.2	-1.0	0.5
iv) लोहा और इस्पात	3.64	144.5	163.5	166.1	—	0.1	10.6	14.9

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

16. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2002	2003				
	29 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त	27 अगस्त	28 अगस्त	29 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	3114.16	4004.63	4152.29	4205.56	4212.29	4244.73
एसएण्डपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	987.25	1271.10	1318.20	1340.30	1341.05	1356.55

17. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपये)

	निम्न को समाप्त सप्ताह						
	18 जुलाई 2003	25 जुलाई 2003	1 अगस्त 2003	8 अगस्त 2003	15 अगस्त 2003	22 अगस्त 2003	29 अगस्त 2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिये गये उधार	4,671	3,803	3,531	3,409	4,534	3,660	4,449
ख) दिये गये ऋण	4,871	5,007	4,674	3,869	6,360	7,515	7,007
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिये गये उधार	5,514	6,282	5,262	5,406	6,642	7,939	7,680
ख) दिये गये ऋण	192	129	166	182	225	96	188
3. बैंकेतर संस्थाएं							
क) दिये गये ऋण	3,489	3,510	2,981	3,501	3,503	2,930	3,240
4. कुल							
क) लिये गये उधार	10,185	10,085	8,793	8,815	11,176	11,599	12,129
ख) दिये गये ऋण	8,552	8,646	7,821	7,552	10,088	10,541	10,435

* : इनमें प्रतिभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों के 90-95 प्रतिशत आंकड़े शामिल हैं।

ये आंकड़े सप्ताह के लिए दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

18. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को समाप्त सप्ताह					
	25 जुलाई 2003	1 अगस्त 2003	8 अगस्त 2003	15 अगस्त 2003	22 अगस्त 2003	29 अगस्त 2003
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां	87,062	85,759	99,314	1,14,101	79,171	1,20,475
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	256	682	655	1,506	619	1,464
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,831	2,441	2,594	3,296	2,682	3,751
घ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,779	1,555	1,194	2,005	3,005	3,870
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	—	47	—	—	11,479	20

@ : रेपो लेनदेनों को छोड़कर।

* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

19. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्वावर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डालर)

निम्नलिखित तारीख को स्थिति	वणिक्						अंतर-बैंक					
	विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा			विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	स्वैप	वायदा	हाजिर	स्वैप	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
11 अगस्त 2003	502	207	36	11	42	19	872	1408	75	414	229	13
12 अगस्त 2003	349	199	49	19	86	35	960	1044	36	327	240	1
13 अगस्त 2003	418	324	36	3	48	41	1062	1043	22	451	112	9
14 अगस्त 2003	495	332	37	55	153	69	867	1283	112	498	331	2
15 अगस्त 2003+												
18 अगस्त 2003	554	243	41	10	28	50	1043	790	62	478	187	7
19 अगस्त 2003	358	246	74	22	54	72	868	1253	109	622	182	7
20 अगस्त 2003	426	179	19	29	70	28	674	1070	24	493	176	6
21 अगस्त 2003	398	224	32	59	32	24	1081	818	77	581	225	21
22 अगस्त 2003	396	169	31	36	11	12	756	878	64	570	153	45
बिक्री												
11 अगस्त 2003	412	82	195	11	32	38	946	1195	352	418	226	11
12 अगस्त 2003	287	122	133	46	63	41	1049	880	284	336	215	—
13 अगस्त 2003	240	136	106	2	40	46	1367	1036	70	490	149	8
14 अगस्त 2003	368	94	64	16	75	71	1153	1258	328	510	272	4
15 अगस्त 2003+												
18 अगस्त 2003	536	133	144	10	14	74	1054	711	175	465	196	7
19 अगस्त 2003	263	114	103	20	85	70	941	1264	188	578	214	7
20 अगस्त 2003	379	49	77	48	52	37	855	1074	186	471	152	3
21 अगस्त 2003	289	102	89	56	57	32	1107	780	166	519	251	27
22 अगस्त 2003	380	98	73	7	66	8	752	778	96	610	155	12

एफ सी वाय : विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर : भारतीय रुपया ।

+ : बाजार बंद ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक् और अंतर-बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

20. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपये)

	समाप्त सप्ताह					
	26 जुलाई 2003	2 अगस्त 2003	9 अगस्त 2003	16 अगस्त 2003	23 अगस्त 2003	30 अगस्त 2003
1	2	3	4	5	6	7
राशि	100.29	82.80	36.90	40.77	119.24	119.42

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

21. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपये)

धारक	29 अगस्त 2003				कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल			कुल (2+3+4)	सप्ताह की तुलना में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	-1,019
बैंक	—	5,442	17,622	23,064	1,199	-5,830
राज्य सरकारें	3,367	800	—	4,167	-214	-2,227
अन्य	264	5,096	8,502	13,863	-209	8,709

22. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार - 2003-04
(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालन में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपये में)

	जुटायी गयी सकल राशि			जुटायी गयी निवल राशि		
	2003-2004 (29 अगस्त 2003 तक)	2002-2003 (30 अगस्त 2002 तक)	2002-2003	2003-2004 (29 अगस्त 2003 तक)	2002-2003 (30 अगस्त 2002 तक)	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	88,434*	77,000	1,25,000	56,316	64,595	97,580
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	5,000	23,175	36,175			
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	17,223	20,588	53,780			
	—	—	—			

* : इनमें रु.14,434 करोड़ शामिल हैं जो सरकारी ऋण पुनर्खरीद योजना के अंतर्गत 22 जुलाई 2003 को पुनः जारी चार प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य है।

23. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	22 अगस्त 2003 को समाप्त सप्ताह			29 अगस्त 2003 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेन देन						
1. सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2003-04	135	4.9966	5.0465	301	4.6576	4.7759
2004-05	—	—	—	7	4.7365	—
2005-06	119	5.0143	5.0737	423	4.6681	4.8115
2006-07	75	5.0758	5.1227	160	4.7403	4.8696
2007-08	81	5.0951	5.1003	271	4.8047	4.9975
2008-09	987	5.1813	5.4414	1,583	4.8390	5.4505
2009-12	3,784	5.0374	5.7963	6,670	4.9506	5.7239
2012-13	3,441	5.4851	5.9234	7,208	5.1642	7.2332
2013 से आगे	30,963	5.5269	6.1661	43,613	5.0647	6.1012
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	310	5.9601	6.1836	732	5.9003	6.2456
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिनों तक	29	3.6657	4.9468	227	4.0121	4.9804
ख) 15 - 91 दिन	1,393	4.8270	4.9839	2,145	4.3117	4.9952
ग) 92 - 182 दिन	87	4.8041	4.9562	83	4.5375	4.5996
घ) 183 - 364 दिन	1,334	4.8403	4.9764	1,356	4.5574	4.9864
II. भा.रि.बैं. : बिक्री	11,479			20		
: खरीद	—			—		
III. रेपो कारोबार ₹ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दर (% वार्षिक)		राशि	दर (% वार्षिक)	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	15,847	3.00 (1)	5.80 (7)	19,018	3.00 (1)	5.00 (14)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	200	4.30 (3)	—	150	4.20 (4)	—
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	725	4.25 (1)	5.10 (5)	1,173	3.95 (1)	4.75 (5)
4. 364 - दिवसीय खजाना बिल	832	4.10 (1)	5.00 (7)	766	4.00 (1)	4.65 (14)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो ₹^	80,490	5.00	—	1,03,970	4.50	—
: रिवर्स रेपो !	—	—	—	—	—	—

@ : भा.रि.बैं., मुंबई के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना के अनुसार, जो वर्तमान में देश के कुल कारोबार का लगभग 98 प्रतिशत है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

₹ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) मानकेतर आकार समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाये।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक 2003 के लिए वार्षिक शुल्क भारत में **रु.400** (डाक व्यय सहित) और विदेश के लिए **80 अमरीकी डालर** (हवाई डाक प्रभार सहित) है। एक प्रति का मूल्य **रु.8/-** है।श्री राजीव रंजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 00 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा **प्रिंटराइट**, 24-बी, अंबालाल दोशी मार्ग, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।

पंजीकरण सं.आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

टेक/47-400 / एमबीआइ / 2003-05